

This question paper contains 8+2 printed pages]

H.P.A.S. (Main)—2011

BOTANY

Paper II

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 150

Note :— Attempt five questions in all. All questions carry equal marks. Question No. 1 is compulsory. Of the rest attempt any four questions.

कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रश्न क्र. 1 अनिवार्य है। शेष में से कोई चार प्रश्न हल कीजिए।

1. Compulsory question :

Write brief notes on the following : $5 \times 6 = 30$

- (a) Role of mutations in plant breeding
- (b) Chromosomal theory of inheritance

- (c) ATP and NADPH formation during photochemical reaction
- (d) Conservation of biodiversity in India
- (e) Importance of plants for man.

अनिवार्य प्रश्न :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) पादप प्रजनन में उत्परिवर्तन की भूमिका
- (ब) वंशागति का गुणसूत्री सिद्धान्त
- (स) प्रकाश-रासायनिक अधिक्रिया के द्वारान ATP तथा NADPH की संरचना
- (द) भारत में जैववैविध्य का संरक्षण
- (य) मनुष्य के लिए पादपों का महत्व ।

2. Distinguish between :

$6 \times 5 = 30$

- (a) Nucleosides and Nucleotides

- (b) Transformation and Transduction
- (c) mRNA and tRNA
- (d) B-DNA and Z-DNA
- (e) DNA polymerase and DNA ligase
- (f) Leading strand and lagging strand.

निम्नलिखित के बीच अन्तर्भेद कीजिए :

- (अ) न्यूक्लिओसाइड तथा न्यूक्लिओटाइड्स
- (ब) रूपान्तरण तथा पारक्रमण
- (स) mRNA तथा tRNA
- (द) B-DNA तथा Z-DNA
- (य) DNA पोलीमरेज तथा DNA लाइगेस
- (र) अग्रायन (लीडिंग) स्ट्रेन्ड तथा पश्चायन (लैगिंग)

स्ट्रेन्ड ।

3. Explain the following : $3 \times 10 = 30$
- Role of 'Isolation' in evolution.
 - Cytological and Taxonomical evidence in favour of evolution.
 - "Mammals and birds have evolved from reptiles." Explain the statement in the light of palaeontological and embryological evidences.

निम्नलिखित को समझाइये :

- विकास में पार्थक्य की भूमिका ।
- विकास के पक्ष में कोशिका वैज्ञानिक तथा वर्गिकीय साक्ष्य ।
- "स्तनधारियों तथा पक्षियों का उद्भव (विकास) सरीसृपों से हुआ है।" पैलिओन्टोलोजिकल (जीवाशम विज्ञान) तथा भौगोलिकी साक्ष्य के प्रकाश में इस कथन को स्पष्ट कीजिए ।

4. (a) What is transpiration ? How is guttation different from transpiration ? Discuss the role of K^+ ions in closing and opening of stomata.
- (b) Define photophosphorylation. Describe cyclic and non-cyclic photophosphorylation.
- (c) Explain the process of alcoholic fermentation and Kreb's cycle $3 \times 10 = 30$.

- (अ) वाष्पोत्सर्जन क्या है ? बिन्दुस्राव वाष्पोत्सर्जन से किस प्रकार भिन्न है ? रन्ध्रों के खुलने तथा बन्द होने में K^+ आयनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए ।
- (ब) फोटोफोरोस्फोरीलेशन को परिभाषित कीजिए । चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफोरोस्फोरीलेशन का वर्णन कीजिए ।
- (स) अल्कोहलीय किण्वन तथा क्रेब चक्र की प्रक्रिया को समझाइए ।

5. (a) What are the various types of senescence observed in plants ? Can senescence be retarded by growth regulators ?
- (b) Discuss the role of growth regulators in agriculture.
- (c) What roles do auxins, gibberellins and cytokinines play in plant growth and development ? How would you distinguish among these hormones ?

$$3 \times 10 = 30$$

(अ) पादपों में परिलक्षित जीर्णता के विभिन्न प्रकार क्या हैं ? क्या वृद्धि रेगुलेटरों द्वारा जीर्णता मंदित की जा सकती है ?

(ब) कृषि में वृद्धि रेगुलेटरों की भूमिका की व्याख्या कोजिए ।

(स) पादप वृद्धि तथा विकास में ऑक्सिजन, जिवरेलिन तथा साइटोकाइनिन की क्या भूमिका होती है ? इन हॉमोनों के बीच आप क्या अन्तर्भेद करेंगे ?

6. Write short notes on the following : $5 \times 6 = 30$

- (i) Characteristics of a biotic community
- (ii) Ecotones and Edge effects
- (iii) Primary and Secondary productivity
- (iv) Keystone species and Critical Link species
- (v) Conservation of biotic resources.

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (i) बायोटिक समुदाय की विशेषताएँ

- (ii) ईकोटोन तथा कोर (एज) प्रभाव
- (iii) प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकता
- (iv) कोस्टोन (कुंजीशिला) तथा क्रिटिकल लिंक स्पीशीज्
- (v) जैविक (बायोटिक) संसाधनों का संरक्षण
7. Write explanatory notes on the following : $5 \times 6 = 30$
- (a) Effect of air pollution on vegetation
 - (b) B.O.D.
 - (c) Radioactive waste disposal
 - (d) Biodegradable and non-biodegradable pollutants
 - (e) Effects of global warming and acid rain.

निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) बनस्पति पर वायु प्रदूषण का प्रभाव

(ब) बी.ओ.डी.

(स) रेडियोधर्मी व्यर्थ निस्तारण

(द) जैवनिमीकरणीय तथा अजैवनिमीकरणीय प्रदूषक

(य) ग्लोबल वार्मिंग तथा अम्ल वर्षा के प्रभाव ।

8. (a) What are the medicinal plants found in India ? Give their botanical names and uses.
- (b) Sources of fibres, their uses and trade.
- (c) Discuss the important food and wood yielding plants along with their families, botanical names and uses.

$3 \times 10 = 30$

(अ) भारत में कौन-कौनसे औषधीय पादप पाए जाते हैं ?

इनके वानस्पतिक नाम तथा उपयोग दीजिए ।

(ब) रेशों के स्रोत, उनके उपयोग तथा व्यापार ।

(स) प्रमुख खाद्य तथा काष्ठ (लकड़ी) उत्पन्न करने वाले पादपों का उनके कुल (वंश) सहित वानस्पतिक नाम तथा उपयोगों की व्याख्या कीजिए ।